

वनस्थली विद्यापीठ (राष्ट्रीय सेवा योजना)

रिपोर्ट

अप्रैल-मार्च, 2020-2021

अप्रैल, 2020

कोविड-19 के कारण गत माह मार्च से जो अभूतपूर्व गतिरोध पैदा हो गया था उससे समूचा विश्व हतप्रभ होकर विकट परिस्थितियों से जूझ रहा है। तदनुसार विद्यापीठ को भी अचानक 14 मार्च, 2020 से शिक्षण कार्य स्थगित करना पड़ा और उसके बाद से सभी छात्राओं को अपने-अपने घरों के लिए भेज दिया गया।


राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाओं को बताया गया कि गृह मंत्रालय व भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों व दिशा-निर्देशों का समय-समय पर अनुपालना करते हुए राष्ट्र की सेवा करने में अपना-अपना सहयोग प्रदान करें।

इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय सेवा योजना की सभी स्वयंसेविकाओं को यह सूचित किया गया कि कोविड-19 से सम्बन्धित आवश्यक सावधानियों से आस-पास में रहने वाले जनमानस को जानकारी देते रहें। मास्क, सैनेटाइजर आदि भी वितरित कर दें।

DEALING WITH ANXIETY DURING THE PANDEMIC




- 1** Don't be afraid to ask for help, if you can't decide what to do on situation like this, seek help from other person who you think has a clear vision about things. Talk about how you feel and share thoughts with each other. Other people's perspective can help you cool things down with yourself.
- 2** Social distancing can make us stay home but that doesn't mean we have to isolate, it's essential to stay in communication with friends, family, neighbors and other resources. It's important to find ways to stay calm in situations like these.
- 3** When our mind is full it's hard to focus on other things to ease up the mind try relation techniques like controlled breathing, meditation, yoga.
- 4** Always know the facts, it's good to know the total information about the situation rather than assuming things. Because with the absence of information the anxiety can flare up, gather information only from reliable source and don't overdo it.
- 5** Stay connected, maintaining human interaction online or on the phone can reduce anxiety levels. Maintaining strong connections will help you to feel supported and surrounded by positivity and good energy.
- 6** It's good time for a distraction, distract yourself, pick up a book start reading or start doing things you have always wanted to do like writing, cooking, organizing your things.
- 7** Don't be hard on yourself when you can't shut yourself off from fear and pain. Realize that it's a hard situation that the whole world is going through right now.
- 8** Always practice self-care, it's important to take care of ourselves right now, focus on our health, both physical as well as mental health. Follow a regular routine that brings comfort and stability.
- 9** Stay optimistic, have a positive attitude towards things and learn ways to calm down yourselves and find a peace of mind.



चित्र: कोविड-19 महामारी से उत्पन्न घबराहट बचने के उपाय

अतएव शनिवार, 25 अप्रैल, 2020 को सांय 5:00 बजे सभी स्वयंसेविकाओं ने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने घर के दरवाजे पर, बालकनी पर अथवा छत पर आकर 5 मिनट तक ताली बजाकर, घंटी बजाकर, बर्तन बजाकर, शंख आदि बजाकर देशवासियों के मनोबल को बढ़ाया।



चित्र : स्वयंसेविका कोविड-19 में जनसाधारण का मनोबल बढ़ाते हुए।

“दो गज दूरी मास्क है जरूरी” को “जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं” के रूप में रामबाण औषधी मानकर पालना करने के दिशा-निर्देश दिए गए।

डॉ. शिखा सिंह, कार्यक्रम अधिकारी ने 100 मास्क बनाकर लखनऊ में अपने गृह परिसर के सुरक्षा गार्ड को वितरित किए।



चित्र : डॉ. शिखा सिंह, कार्यक्रम अधिकारी मास्क वितरित करते हुए

स्वयंसेवकों ने लगातार अप्रैल माह से लगभग पूरे सत्र अपने घरों में स्वयं फेस मास्क बनाये एवं इन्हें जरूरतमन्दों को वितरित करें।

सुश्री अपूर्वा अग्रवाल स्वयंसेविका ने अपनी मां के सहयोग से 100 मास्क बनाकर जरूरतमंदों को बांटे





चित्र: में स्वयंसेविका मास्क बनाते हुए

स्वयंसेविकाओं ने कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरतमन्दों की सहायता एवं बचाव को लेकर प्रण भी लिया। महामारी के प्रकोप में स्वयंसेवकों अपने गृह नगर में भोजन वितरण किया। वनस्थली विद्यापीठ के स्वयंसेविका चेस्टा ने कहा “एक भारतीय होने के नाते यह मेरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम इस कठिन समय में कुछ पहल करें, जिसका हमारा देश सामना कर रहा है। मेरे परिवार के सदस्यों को खाना बनाने

और भूखे लोगों के लिए इसे पैक करने में मदद करके मेरी तरफ से एक छोटा सा योगदान कर रही हूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है सावधानी बरतें और कोविड-19 पर घर पर रहें और सुरक्षित रहें।”



चित्र: में स्वयंसेविका जरूरतमन्दों की सहायता एवं बचाव के लिए खाना पैक करते हुए

5 अप्रैल, 2020 को “बूस्ट द मोरल” कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि कोविड-19 महामारी के कारण जो लोग आशा खो चुके हैं उन्हें सामान्य मानसिकता में लाया जा सके। अन्य कार्यक्रमों में “कोरोना वायरस मिथ बस्टिंग” किए गए।



The infographic features a dark blue background with a teal gradient. At the top left is the National Service Scheme (NSS) logo, and at the top right is a globe icon. The title 'CORONAVIRUS MYTH BUSTING' is written in large, white, sans-serif capital letters. Below the title are five myth-busting points, each with an icon in a white square and text in white:

-  Cold weather and snow **CANNOT** kill the new coronavirus.
-  The new coronavirus **CANNOT** be transmitted through mosquito bites.
-  Spraying alcohol or chlorine all over your body will not kill viruses that have already entered your body.
-  The new coronavirus is a virus therefore, antibiotics should not be used as a means of prevention or treatment.
-  Taking a hot bath does not prevent the new coronavirus disease.

चित्र : कोविड-19 में मिथ बस्टिंग

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने शुक्रवार 3 अप्रैल, 2021 को लोगों से अनुरोध किया था कि वे कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए सामूहिक संकल्प और एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए रविवार रात नौ बजे नौ मिनट के लिए लाइट बुझा दें और अपने-अपने घरों में दीपक और मोमबत्ती, टार्च, मोबाइल फ्लैशलाइट जलायें।

सभी स्वयंसेवकों ने रविवार रात नौ बजते ही, घरों में बत्तियां बुझा दी गईं और बालकनी में खड़े होकर दीये और मोमबत्ती जलाईं। कइयों ने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट एवं टार्च जलाईं। सभी स्वयंसेवकों ने इस तरह कोरोना वायरस संकट से निपटने में राष्ट्र के "सामूहिक संकल्प एवं एकजुटता" प्रदर्शित की।

स्वयंसेवकों ने स्वयं को "आरोग्य सेतु" ऐप से जोड़कर जनसामान्य को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया।



चित्र: आरोग्य सेतु ऐप

स्वयंसेवकों ने जन जागरण को कोविड-19 महामारी के सन्दर्भ में फैलाई जा रही भ्रान्तियों को दूर करने में सहयोग दिया। समय-समय पर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार में स्वयंसेवक भी शामिल हुए। मिनिस्ट्री ऑफ युथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स द्वारा समय-समय पर आयोजित वेबिनार में समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी व स्वयंसेविकाओं ने भी भाग लिया।



The slide features the Government of India emblem and the text "Ministry of Health & Family Welfare Government of India". It includes an illustration of a COVID-19 virus on the left and four people (a man in a red vest, a doctor, a soldier, and a woman) on the right. The central text reads "COVID-19" and "APRIL 10, 2020 2:30 PM – 5:30 PM". Below this, it lists "RESPONSE AND CONTAINMENT MEASURES" and "TRAINING OF COVID WARRIORS". A message on the right says "Please wait. The Webinar will begin shortly at 2:30 PM". At the bottom, it mentions "This guide for utilisation of members from: The Ministry of Youth Affairs & Sports, National Cadet Corps, The Indian Red Cross Society & The Ministry of AYUSH".



The slide is titled "SESSION 7" and "HOW TO MEET SPECIAL COMMUNICATION NEEDS IN URBAN AREAS". It features three main topics in colored boxes: "ACTIVATING SUPPORT" (yellow), "SAFE PRACTICES" (light blue), and "STIGMA & DISCRIMINATION" (yellow). A small video inset in the top right shows a person speaking. A "REC" indicator is visible in the top right corner. The slide number "41" is in the bottom right corner.

चित्र: वेबिनार में भाग लेते हुये राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम

Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University
Village Madau, Post Bhankrota. Jaipur – 302026.

National Service Scheme Wing & IQAC
National Webinar
On
A Discussion on Working Modes and Methods of NSS in Light of
Covid- 19 Pandemic.
Certificate

This is to certify Shri/Smt./ Dr./Prof. Rajani Chauhan
has participated in the National Webinar organized on May 26 , 2020.


Dr. Diwakar Mishra
Convenor Webinar & Coordinar
NSS Wing, J.R.R.S.U, Jaipur.


Dr. Suhash Sharma
Convener, IQAC, J.R.R.S.U,
Jaipur.


Vice Chancellor, J.R.R.S.U,
Jaipur.

चित्र: वेबिनार में भाग लेने पर प्राप्त प्रमाण-पत्र

अप्रैल, 2020

चेस्टा, वनस्थली विद्यापीठ की स्वयंसेविका को फेस शील्ड बनाने का विचार आया। उनके अनुसार “हमारी दुनिया अस्पताल के लोगों–नर्सों और डॉक्टरों के साथ थी और हमें पता चला कि स्वच्छता किट की मांग कितनी अधिक थी। लेकिन लॉकडाउन के कारण आपूर्ति बहुत कम थी। हमने मिलकर घर पर एक सस्ता लेकिन काम करने योग्य फेस शील्ड बनाने की योजना बनाई और उन्हें विभिन्न अस्पतालों और पीएचसी में भेज दिया। मुख्य कार्य कच्चे माल की व्यवस्था करना और महामारी के भय से सामग्री को लाना–ले जाना था।”

स्वयंसेवकों ने घर पर सस्ती वस्तुओं से फेस शिल्ड बनाकर जरूरत मन्द लोगों को वितरित किये। चेस्टा ने बुनियादी स्थिर आपूर्ति का उपयोग करके लगभग 700–800 फेस शील्ड बनाए और उसकी टीम ने कुल 5000 फेस शिल्ड बनाई। मिशन फेस शील्ड अप्रैल, 2020 से अगस्त, 2020 तक हुआ। यह एक स्वयंसेवक के रूप में सबसे कठिन और सबसे अच्छा काम था। चेस्टा ने खुद को कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी महसूस की।





चित्र: चेस्टा द्वारा तैयार फेस शील्ड



चित्र: स्वयंसेवकों द्वारा होममेड फेस शील्ड का वितरण

कुछ स्वयंसेवकों ने एम्स जैसी संस्थाओं के साथ भी मिलकर सामाजिक सेवा में योगदान दिया।

स्वयंसेवक लगातार लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं और "सैनेटाइजर का उपयोग कैसे करें" पर प्रशिक्षण प्रदान करते रहे हैं। कुछ स्वयंसेवकों को फ़ैकल्टी एसोसिएशन एम्स, भोपाल से प्रमाण-पत्र भी मिला है।



चित्र: स्वयंसेविका सेनेटाइजर का प्रयोग सिखाते हुये



FACULTY ASSOCIATION AIIMS BHOPAL

2nd FLOOR MEDICAL COLLEGE BUILDING, AIIMS CAMPUS, SAKET NAGAR, BHOPAL- MP 462 020
Registered under the Societies Registration Act 1973
(Reg. No. 01/01/01/28525/14, dated 22/08/2014)
E-mail: faab@aiimsbhopal.edu.in

President

Dr. Manish Gupta
9881964568

Vice President

Dr. Abhishek Goyal
9630098093

General Secretary

Dr. Raghendra K Vidua
7747010414

Joint Secretary

Dr. Ashok kumar
8223066089

Treasurer

Dr. Akesh Khurana
7773010091

Executive Members

Dr. Balakrishnan S
9894021016

Dr. Rajay Bharshankar
8463866138

Dr. Ashwani Tandon
8887606075

Dr. Ajay Halder
9039064401

Mrs. Mamta Verma
9981540519

Dr. Shiv Pratap Singh Rana
9968856425

Dr. Ganakalyan Behera
9753239660

Letter No. FAAB/AIIMS/BPL/2017-20148

Dated: 06/06/2020

Certificate of appreciation

The Faculty Association of AIIMS Bhopal (FAAB) express its sincere appreciation and acknowledgement of the support by following below mentioned individuals for the noble cause of fight against the COVID 19 pandemic. They have generously donated the face shields to the doctors of AIIMS Bhopal free of cost which have been found very much useful for us.

1. Shreya Nigam
2. Abrar bin Ayub
3. Chestha Mittal
4. Mitali Samant
5. Ruby Verma
6. Paramjeet Singh
7. Rohit Gupta
8. Ankur Jain
9. Kartik Verma
10. Puneet Chopra
11. Dhruv Budhiraja
12. Rajan

The Faculty Association of AIIMS Bhopal (FAAB) convey best wishes for your future endeavour.


Manish Gupta
PRESIDENT (FAAB)
FACULTY ASSOCIATION
AIIMS BHOPAL

Raghendra K Vidua
GENERAL SECRETARY (FAAB)
FACULTY ASSOCIATION
AIIMS BHOPAL



चित्र: स्वयंसेविकाओं ने कोविड-19 के दौरान कार्य करने पर प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया

विश्वविद्यालय में फार्मसी डिपार्टमेंट के अन्तर्गत पूरे कोविड-19 महामारी के दौरान कम लागत वाला सैनिटाइज़र तैयार किया जो कि हाथों एवं छिड़काव दोनों तरह के थे। और उसका उपयोग हेतु आस-पास के क्षेत्र में वितरित किया।



चित्र: सैनेटाइज़र का निर्माण

मई, 2020

स्वयंसेवकों ने समय-समय पर सेनेटाइजर का प्रयोग एवं हाथ की धुलाई की विधि के बारे में जनसामान्य को जागरूक किया।

स्वयंसेवकों ने समय-समय पर ऑक्सीमीटर के प्रयोग एवं इससे मिलने वाली सूचना के विश्लेषण के बारे में भी सामान्य जन को अवगत कराया।

“बूस्ट द इम्युनिटी” कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेविकाओं ने वट्सऐप के माध्यम से आर्युवेदिक औषधियों की सूचना जनसामान्य तक प्रेषित की।

The infographic is titled "ENHANCE YOUR IMMUNITY WITH AYUSH KWATH" and is presented by the Ministry of Ayush, Government of India. It features the logos of the Ministry, a "Help us to Help you" slogan, and the "myGov" portal. The main heading is "ENHANCE YOUR IMMUNITY WITH AYUSH KWATH" in green and yellow. Below this, it states "Formulation comprises of 4 medicinal herbs". The ingredients are listed as follows: Tulsi Leaves (4 parts), Dalchini (2 parts), Sunthi (2 parts), and Krishna Marich (1 part). Each ingredient is accompanied by a small image. The infographic is divided into two sections: "PREPARATION" and "USE". The "PREPARATION" section includes two steps: "Take all the ingredients in dry form & make coarse powder" and "Make sachets or tea bags of 3 gms or 500 mg. tablet of aqueous extract of the powder". The "USE" section includes two instructions: "Consume like tea by dissolving in 150 ml of boiled water, once or twice daily" and "Add Jaggery/Raisins/Lemon Juice for taste". At the bottom, there is a photograph of the ingredients and a glass of the prepared kwath.

Ministry of Ayush
Government of India

Help us to
Help you

myGov
मेरी सरकार

ENHANCE YOUR IMMUNITY WITH AYUSH KWATH

Formulation comprises of 4 medicinal herbs

Tulsi Leaves
4 parts

Dalchini
2 parts

Sunthi
2 parts

Krishna Marich
1 part

PREPARATION

- Take all the ingredients in dry form & make coarse powder
- Make sachets or tea bags of 3 gms or 500 mg. tablet of aqueous extract of the powder


USE

- Consume like tea by dissolving in 150 ml of boiled water, once or twice daily
- Add Jaggery/Raisins/Lemon Juice for taste

चित्र: व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए इम्युनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा का प्रसार किया गया

इस वर्ष नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हुये कार्यक्रम अधिकारियों ने स्वयंसेविकाओं को इस नीति के बिन्दुओं से अवगत कराया।

कार्यक्रम अधिकारियों एवं स्वयंसेविकाओं ने पल्स पोलियो कार्यक्रम के दौरान जनजागरण को दो बून्द जिन्दगी के महत्त्व को भी समझाया।





Samiksha Upadhyay BBALLB III YEAR
NSS year 2nd Unit 3/ 1813854
Banasthali Vidyapith

स्वयंसेवकों ने कोविड-19 महामारी के समय इससे सम्बन्धित विभिन्न जागरूक अभियानों में भाग लिया। इस माह में 5 मई को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में भाग लिया।



Certificate IDPQU2L0-CE002160

**Office: District Coordinator N.S.S.
Dr. B. R. Ambedkar Government P.G. College,
Sri Ganganagar (Rajasthan)**



Date: 3-6-2020

Certificate of Participation

This is to certify that **Isha of Banasthali Vidyapith, Tonk, Rajasthan** has solemnly pledged & participated in online Pandemic COVID-19 Awareness Programme organised by Office of District Coordinator N.S.S., Sri Ganganagar (Raj.) & committed to discharge the service to the Nation as a Responsible Citizen.

Sh. S.P. Bhatnagar
Regional Director N.S.S., Jaipur
Ministry of YAS, Government of India

Dr. Banay Singh
State Coordinator N.S.S.
Commissionerate Higher Edu., Jaipur

Dr. Shyam S. Khinchi
District Coordinator N.S.S.
Sri Ganganagar- District

चित्र: विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में प्राप्त प्रमाण-पत्र

जून, 2020

3 जून, 2020 को सलाहाकर समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित मुख्य सदस्य इस प्रकार थे।

प्रो० ईना शास्त्री, सहकुलपति, वनस्थली विद्यापीठ, डॉ० रजनी चौहान, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, वनस्थली विद्यापीठ एवं डॉ. माण्डवी सिंह, सहसमन्वयक

राष्ट्रीय सेवा योजना, वनस्थली विद्यापीठ व अन्य कार्यक्रम अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया गया। यह महामारी कोरोना वायरस से ग्रसित महामारी है जो कि बहुत कम समय में जानलेवा साबित हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय एवं विश्व विद्यालय नियमों की पालना करते हुए इस वैश्विक महामारी से जन सामान्य को अवगत कराने हेतु कुछ बिन्दुओं पर चर्चा की गई—

1. यह बिमारी किस उम्र के लोगों को सर्वाधिक प्रभावित करती है, इसके लक्षण क्या है।
2. इसकी रोकथाम कैसे की जाए।
3. बिमारी के प्रति अफवाओं को कैसे रोका जाए।
4. महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में आई अस्थिरता एवं मानसिक अस्थिरता को कैसे संतुलित किया जाए।

सभा में उपस्थित गणमान्यों से प्राप्त सुझाव इस प्रकार थे।

1. भारत सरकार और विश्वविद्यालय के महामारी से सम्बन्धित नियमों का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है।
2. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जन-जागरण हेतु वेबिनार, टॉक प्रोग्राम किए जा सकते हैं।
3. स्वयंसेवक घर में ही उपलब्ध कपड़ों से मास्क बनाकर जरूरत मंदों को महामारी से सम्बन्धित नियमों का पालन करते हुए वितरण कर सकती है।
4. मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्तियों से मिलकर उनको भविष्य में सामान्य जीवन होने की संभावनाओं से अवगत करा सकते हैं।
5. अधिक से अधिक जन सामान्य को आरोग्य सेतु ऐप से जुड़वा सकती है।
6. बिमारी से बचाने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधी से लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करना।

स्वयंसेवकों ने समय-समय पर कोविड-19 जागरूकता से सम्बन्धित अनेकों कार्यक्रमों में भाग लिया।



Certificate IDPQU2L0-CE002160

**Office: District Coordinator N.S.S.
Dr. B. R. Ambedkar Government P.G. College,
Sri Ganganagar (Rajasthan)**



Date: 3-6-2020

Certificate of Participation

This is to certify that **Isha of Banasthali Vidyapith, Tonk, Rajasthan** has solemnly pledged & participated in online Pandemic COVID-19 Awareness Programme organised by Office of District Coordinator N.S.S., Sri Ganganagar (Raj.) & committed to discharge the service to the Nation as a Responsible Citizen.

Sh. S.P. Bhatnagar
Regional Director N.S.S., Jaipur
Ministry of YAS, Government of India

Dr. Banay Singh
State Coordinator N.S.S.
Commissionerate Higher Edu., Jaipur

Dr. Shyam S. Khinchi
District Coordinator N.S.S.
Sri Ganganagar- District

चित्र: कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने पर प्रमाण-पत्र प्राप्त किया

इस माह में स्वयंसेवको ने कच्चा एवं पके हुये खाद्य पदार्थों का वितरण कोविड-19 से पीड़ित लोगों के बीच किया। यह कार्य उन्होंने अपने परिवार के साथ अपने स्थानीय आवास के नजदीक जगहों पर रहते हुये किया।




चित्र: सुश्री अदिति नेगी एवं जागृति सिंह, स्वयंसेविकाएं यूनिट नं. 7 द्वारा नैनीताल उत्तराखण्ड में खाद्य सामग्री वितरित करते हुये।

इसी माह में “अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस” 21 जून, 2020 को मनाया गया। इस वर्ष इस योग दिवस की मुख्यधारा “योग घर पर एवं योग परिवार के साथ” थी। इसमें सभी स्वयंसेवकों, विश्वविद्यालय के स्टाफ ने बद्ध-चढ़कर भाग लिया।

“योग घर पर एवं योग परिवार के साथ” मुख्यधारा के अनुसार 21 जून, 2020 को सुबह 7:00 बजे से 7:45 बजे तक राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेविकाओं विद्यापीठ के स्टाफ सदस्यों और छात्राओं ने द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने घर पर छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

स्वयंसेवकों, कर्मचारियों और छात्रों के परिवारों ने भी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सक्रिय रूप से भाग लिया और महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने सामाजिक दूरी के मानदण्डों का पालन किया।







चित्र: "अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस" 21 जून, 2020 स्वयंसेविका योग करती हुई

जुलाई, 2020—

जुलाई माह में स्वयंसेविकाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में पौधारोपण का कार्य किया।



चित्र: वृक्षारोपण करती स्वयंसेविका

फिट इण्डिया मूवमेंट, लोगों को स्वस्थ और फिट रहने और प्रोत्साहित करने के लिए भारत में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 29 अगस्त, 2019 (राष्ट्रीय खेल दिवस) को नई दिल्ली में **आई जी एस** नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था।

तब से और उसके पहले से भी वनस्थली विद्यापीठ वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम में भागीदारी के लिए प्रेरित करती रही है।

“फिट इण्डिया प्रोग्राम” कार्यक्रम के तहत स्वयंसेविकाओं ने योग, दौड़ना, बैडमिंटन और अन्य कई गतिविधियों का प्रदर्शन किया।


इस पूरे माह में स्वयंसेवकों ने अपने निजी स्थानों पर रहते हुये महामारी के दौरान अपने को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए **“फिट इण्डिया”** कार्यक्रम में बढ़चढ़कर भाग लिया।





चित्र: फिट इण्डिया मूवमेंट, के तहत स्वयंसेविका

इस माह में राष्ट्रीय सेवा योजना की सभी टीमों ने कोरोना वायरस को दुनिया से खत्म करने का संकल्प लिया।



चित्र: कोरोना महामारी के विरुद्ध शपथ-पत्र

चूंकि कोविड-19 महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैल गया है । अतः वनस्थली विद्यापीठ की स्वयंसेविकाओं ने इस दौरान लगातार मास्क तैयार करते रहे और जरूरतमंद व्यक्तियों को वितरित करते रहे है ।



चित्र: स्वयंसेविकाओं द्वारा मास्क का निर्माण एवं वितरण

स्वयंसेविकाओं ने लोगों को सेनेटाइजर के उपयोग और हाथ धोने के तरीके के बारे में भी बताया।



चित्र: सेनेटाइजर का प्रयोग सिखाती स्वयंसेविका

पूरे सत्र के दौरान वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली और आस-पास के क्षेत्र में सेनिटाइजर तैयार कर जरूरतमंद लोगों को बांट रहा है। स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े भी बांटे।



चित्र: सुश्री अंजली वर्मा, बी.कॉम द्वितीय वर्ष, जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन एवं वस्त्र वितरण करती हुई

अगस्त, 2020

राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्बन्धित गतिविधियों का प्रारम्भ दिनांक 20 अगस्त, 2020 से हुआ। 20 अगस्त से 30 अगस्त के मध्य तक ऑन लाइन आवेदन-पत्र भरे गये। जिसमें 1558 स्वयंसेवकों के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत प्रवेश लिया गया। इसमें से 904 स्वयंसेवक स्वपोषित इकाई में एवं 652 स्वयंसेवक सरकार द्वारा पोषित इकाइयों में है। पूरे सत्र में 1556 स्वयंसेविकाएं निरन्तर बनी रही। इसमें कार्यक्रम अधिकारी निम्न विवरणानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित गतिविधियों का कार्य सम्पन्न कर रहे हैं—

| क्र. सं. | कार्यक्रम अधिकारी का नाम | मोबाइल नं. / दूरभाष नं. | कार्यक्रम अधिकारी के रूप में नियुक्ति तिथि | ई मेल आई.डी. |
|----------|-------------------------------|-------------------------|--|-------------------------------|
| 1 | डॉ. सुनीता कुमारी | 9602049698 | 01.10.2017 | sunitakumari1772010@gmail.com |
| 2 | डॉ. शिखा सिंह | 9694889800 | 01.08.2019 | shikha.20april@gmail.com |
| 3 | डॉ. माण्डवी सिंह | 7073252347 | 01.09.2014 | mandvi.chauhan2008@gmail.com |
| 4 | डॉ. नवजीत कौर | 8824339949 | 01.09.2016 | nvjithaans@gmail.com |
| 5 | डॉ. गुप्ता रविकान्त राधेश्याम | 9760522118 | 01.09.2019 | ravikant4u7@gmail.com |
| 6 | डॉ. प्रवल पाण्डेय | 8696179988 | 01.08.2018 | prwlpndy@gmail.com |
| 7 | डॉ. करतार सिंह | 8986646765 | 01.08.2019 | kartarbitmesra@gmail.com |
| 8 | श्री निमिष शर्मा | 7055703331 | 01.08.2018 | nimishsharma9@gmail.com |
| 9 | सुश्री बब्ली कुमारी | 8955962571 | 01.09.2016 | bablikumari357@gmail.com |
| 10 | सुश्री सुमन शर्मा | 8875801712 | 01.08.2019 | suman.bagra24@gmail.com |
| 11 | प्रियमबदा | 9953846651 | 01.08.2019 | priyambada.dse@gmail.com |
| 12 | सुश्री उमा शर्मा | 8955448700 | 14.08.2017 | uma.banasthali162gmail.com |
| 13 | डॉ. प्रचेता | 8209111873 | 01.12.2020 | pracheta@banasthali.in |
| 14 | सुश्री सृष्टि | 8789461375 | 01.08.2019 | srishti.phs15@iitp.ac.in |
| 15. | डॉ. अमित कुमार मिश्रा | 9451720037 | 09.11.2016 से 30.11.2020 | amitgeo2012@gmail.com |


इस पूरे माह में स्वयंसेवकों ने अपने निजी स्थानों पर रहते हुये महामारी के दौरान अपने को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए फिर से “फिट इण्डिया” कार्यक्रम में बढ़चढ़कर भाग लिया।

21 अगस्त को स्वयंसेवकों द्वारा **सद्भावना दिवस** मनाया गया जिसमें स्वयं सेवकों ने अपने सैनिकों को याद करते हुये उनके योगदान को याद किया गया। यह दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधीजी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

कोविड-19 महामारी के कारण जनसामान्य के मस्तिष्क में आयी अस्थिरता के निपटान के लिए “मानसिक स्वास्थ्य” विषय पर कई कार्यक्रम किये गये। जैसे—

1. वृद्धावस्था में मानसिक रूप से कार्यकलापों में व्यस्त रहना।
2. वृद्धजनों का साक्षात्कार लेकर उन्हें मानसिक स्थिरता के लिए सलाह देना।
3. वृद्धजनों को हल्के फुल्के घरेलू कार्य कलापों में व्यस्त रहने की सलाह देना।
4. वृद्धजनों को हल्के फुल्के खेलकूद में व्यस्त करना।
5. जनसामान्य को ऑनलाइन माध्यम से मानसिक स्थिरता के चलचित्र दिखाना आदि।
6. वृद्धों एवं बच्चों का एक दूसरे के प्रति जुड़ाव पैदा करना।
7. जनसामान्य को मानसिक गतिविधियों में व्यस्त रखना।

वनस्थली विद्यापीठ की छात्रा चेस्ता के अनुसार “इस साल हमने देशभर में 30 मिलियन लोगों की सेवा करने का मिशन रखा था। मैंने घर से काम किया और नए रॉबिन स्वयंसेवकों को शामिल किया और कम्पनियों के साथ राशन किट और पका हुआ भोजन की व्यवस्था और सहयोग करने की कोशिश की।



चित्र: वनस्थली विद्यापीठ के स्वयंसेवकों द्वारा 30 मिलियन लोगों की सेवा करने का मिशन

सितम्बर, 2020 उन्मुखीकरण-

सत्र 2020-21 के सामान्य गतिविधियों का शुभारम्भ माह सितम्बर, 2020 से किया गया।

वर्चुअल उन्मुखीकरण के माध्यम से डॉ. रजनी चौहान, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना (वनस्थली विद्यापीठ) ने नवागुन्तक स्वयंसेवकों का राष्ट्रीय सेवा योजना में स्वागत किया।

डॉ. रजनी चौहान के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत, राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य, योजनाओं, गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुये युवा पीढी को उसके कर्तव्य, कार्य और देश के विकास में उनके योगदान पर गंभीरता से प्रकाश डालते हुए उन्हें हर मुश्किल में आगे बढ़ने और देश की उन्नति में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी के साथ ही कोविड-19 महामारी के बारे में जानकारी दी।

इस पूरे माह में स्वयंसेवकों को ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकलापों एवं स्वयंसेवकों के दायित्वों के बारे में कार्यक्रम समन्वयक डॉ. रजनी चौहान द्वारा एवं उनके कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा उन्मुखीकरण किया गया।



चित्र: वर्चुअल उन्मुखीकरण

अत्यन्त हर्ष का विषय है कि इसी माह में राज्य सम्पर्क अधिकारी, जयपुर राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान सत्र 2020-21 से वनस्थली विद्यापीठ को दो नई पोषित इकाईयों का आवंटन किया है। जो कि अब 6 इकाई से बढ़कर 8 इकाई हो गई है। डॉ. रजनी चौहान, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, वनस्थली विद्यापीठ ने पिछले तीन वर्षों से इकाई बढ़वाने का काफी प्रयास कर रही थी और वो इसमें कामयाब भी रही।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
राजस्थान सरकार
OFFICE OF THE STATE LIAISON OFFICER

कार्यालय राज्य सम्पर्क अधिकारी
NSS & NCC
एन.एस.एस. एवं एन.सी.सी.
EDU - (GR-4A) Dept., ROOM NO 8313, SSO BUILDING, SECRETARIAT, JAIPUR-302005
शिक्षा (सुप-4अ) विभाग, कमरा नं. 8313, एस.एस.ओ भवन, सचिवालय, जयपुर - 302005
Email : slonssrajasthan@gmail.com

क्रमांक: प. 3(2)/शिक्षा/4-अ/2016

जयपुर, दिनांक 14-09-2020

कुल सचिव,
वनस्थली विद्यापीठ
निवाड़ी, जिला टोंक (राज)

विषय:-राष्ट्रीय सेवा योजना सत्र (NSS) इकाई आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय को वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की 06 इकाई आवंटित हैं। अब 02 इकाई और आवंटित की गई हैं, जिससे महाविद्यालय को वर्ष 2020-21 हेतु कुल 08 इकाइयां (100 स्वयं सेवक प्रति इकाई) आवंटित की गई हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संचालन हेतु मुख्य दिशा-निर्देशों की छाया प्रति प्रेषित है।


कृपया कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई गाइड लाइन्स की पालना करते हुए आगामी कार्यवाही कराने का श्रम करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,
14/09/20
(डॉ० धर्मेन्द्र सिंह)
राज्य सम्पर्क अधिकारी

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सितम्बर माह को “पोषण माह” के रूप में मनाया जाता है। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत वनस्थली में चल रहे कार्यक्रम “निरोग वनस्थली” से स्वयंसेवकों को अवगत कराया गया। यह कार्यक्रम वनस्थली में जनवरी, 2019 से चल रहा है।

24 सितम्बर को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया गया। सितम्बर माह में सभी स्वयंसेविकाओं ने हर समय मास्क पहनने का संकल्प लिया और लोगों को मास्क के महत्व के बारे में भी जागरूक किया। वनस्थली में सभी कर्मचारी “नो मास्क—नो एंट्री” के आह्वान का भी पालन कर रहे हैं।



चित्र: मास्क पहनने का संकल्प लेती हुई स्वयंसेविका

27 सितम्बर, 2020 को चेस्टा ने अपने परिसर में कीमती रत्न नामक एक मिशन साक्षरता की शुरु की। चेस्टा के बैच के साथी- ऋषिका कौशल, अनुकृति शर्मा, रिया, वंशिका और कई भी साथ में शामिल हुए। मिशन 5 स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुआ और फिर मिशन में छात्राओं की संख्या बढ़ती चली गई।

वनस्थली विद्यापीठ ने इनका समर्थन किया और इन्हें आवश्यक समय और सुविधाएं प्रदान की।

इस माह कुछ स्वयं सेवकों ने अपने आस-पास के गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग जारी रखा। वे उन बच्चों को निरन्तर मुफ्त में शिक्षा सम्बन्धी सहयोग देती रही।



चित्र: स्वयंसेविका, रासेयो, वनस्थली विद्यापीठ द्वारा "मिशन साक्षरता"



चित्र: चेस्टा, स्वयंसेविका, रासेयो, वनस्थली विद्यापीठ द्वारा मिशन साक्षरता

अक्टूबर, 2020

महात्मा गांधी के जन्म माह के अवसर पर स्वयंसेविकाओं ने ग्रामीणों को स्वच्छता और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। गांधीजी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर, 2020 को स्वयंसेवकों ने वनस्थली गांव में स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता को बनाये रखने में सहयोग दिया एवं ग्रामीणों को सफाई और स्वच्छता के प्रति सचेत रहने के लिए जागरूक किया।



चित्र: स्वच्छता अभियान में भाग लेती स्वयंसेविका

25 अक्टूबर, 2020 को स्वयंसेवकों (सुश्री चेस्टा ओर रूबी) ने दशहरा के शुभ अवसर पर खाने के 100 पैकेट गुरुग्राम के विभिन्न समुदाय में वितरित किये। इस कार्य से उन्हें मास्क धारी हिरो की अनुभूति हुई।






चित्र: कोविड-19 महामारी के दौरान भोजन वितरण

नवम्बर, 2020

इस माह में पुनः “वृद्ध अवस्था एवं मानसिक स्वास्थ्य” विषय पर विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये।

1. साक्षात्कार
2. सलाह
3. खेलकूद
4. मानसिक पहेली आदि।

ये सभी कार्यक्रम वृद्धों को किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रखने के लिए की गई ताकि वृद्धजन स्वयं के महत्व को समझ सकें एवं अवसाद से बचे रहे।



चित्र: स्वयंसेवको एवं वृद्ध अवस्था एवं मानसिक स्वास्थ्य” कार्यक्रम


इस माह में स्वयंसेवकों ने “स्व निर्मित फेस शिल्ड” क निर्माण की विधि से जन सामान्य को जागरूक किया। यह कोरोना से बचाव का एक साधन की तरह प्रयोग किया गया। उन्होंने इसे स्वयं बनाकर जरूरत मंद को वितरित भी किया।



चित्र: स्वयंसेवक फेस शिल्ड के साथ



चित्र: स्वयंसेवक फेस शिल्ड का विभिन्न स्थानों में वितरण करते हुये।



चित्र: ऑक्सीमीटर के उपयोग का प्रदर्शन करती हुई स्वयंसेविका



MINISTRY OF
**SOCIAL JUSTICE
AND EMPOWERMENT**

my
GOV
मेरी सरकार

PREAMBLE TO CONSTITUTION



WE, THE PEOPLE OF INDIA,
having solemnly resolved to constitute India
into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC
REPUBLIC** and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political;
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity;
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and
the unity and integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this 26th day of
November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE
TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**



I have read the Preamble and will abide by it.

4692974283



November, 26 2020


Rajani Chauhan

Signature

चित्र: डॉ. रजनी चौहान, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, वनस्थली विद्यापीठ के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन दिसम्बर, 2020

जनवरी, 2021


11 से 17 जनवरी तक स्वयंसेवकों ने जन साधारण के साथ मिलकर ऑनलाइन मिडिया से रोड़ सेफटी सप्ताह मनाया और उन्हें जागरूक किया।



चित्र: सड़क सुरक्षा सप्ताह

इसी माह में **सड़क सुरक्षा सप्ताह** भी मनाया गया। जिसमें प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यातायात एवं सड़क नियमों से स्वयंसेवकों ने एक दूसरे को अवगत कराया।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वयंसेवकों ने पहले अपने घर के वृद्धों से शुरुआत कर आस-पड़ोस के लोगों को सहायता प्रदान की।



चित्र: पराक्रम दिवस



23 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया गया।


प्रदर्शन की गई गतिविधियाँ में पोस्टर बनाना, कविता पाठ, कविता लेखन, विडियो बनाना था।



**Samiksha Upadhyay BBALLB III YEAR
NSS year 2nd Unit 3/ 1813854
Banasthali Vidyapith**

चित्र: पराक्रम दिवस





26 जनवरी, 2021 को वनस्थली विद्यापीठ के उपाध्यक्ष प्रो. सिद्धार्थ शास्त्रीजी के आह्वान "झूठन छोड़ने से भोजन की बरबादी को रोकने" का प्रण लिया। जनवरी, 2021 में इसका पालन करते हुये स्वयंसेवको को इसके लिए प्रेरित किया गया। 12 जनवरी, 2021 को "राष्ट्रीय युवा दिवस" मनाया गया।


कुछ स्वयंसेवकों ने कोरोना योद्धाओं को उनके मूल स्थान पर मदद की।



चित्र: कोरोना योद्धाओं की मदद कर रहे स्वयंसेवक

स्वयंसेवकों ने कोरोना वॉरियर्स को समय-समय पर जलपान कराकर उनके उत्साह को हमेशा बनाये रखा।






चित्र: कोविड-19 अग्रणी योद्धाओं को जलपान कराते हुये ।

स्वयंसेवकों को “राष्ट्रीय शिक्षा नीति” से अवगत कराया गया । लोगों को जागरूक करने के लिए पल्स पोलियों कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

फरवरी, 2021

1 फरवरी से 7 फरवरी, 2021 तक में राष्ट्रीय सेवा योजना, वनस्थली विद्यापीठ के कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण प्राप्त कर्ता कार्यक्रम अधिकारियों के नाम इस प्रकार है- डॉ. माण्डवी सिंह, डॉ. नवजीत कौर, डॉ. सुनीता कुमारी व डॉ. शिखा सिंह ।



चित्र: कार्यक्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र

11 फरवरी, 2021 को सलाहाकर समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित मुख्य सदस्य इस प्रकार है।

प्रो० ईना शास्त्री, सहकुलपति, वनस्थली विद्यापीठ, डॉ० रजनी चौहान, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, वनस्थली विद्यापीठ एवं डॉ. माण्डवी सिंह, सहसमन्वयक एन०एस०एस० वनस्थली विद्यापीठ एवं अन्य कार्यक्रम अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

सभा में उपस्थित गणमान्यों से प्राप्त सुझाव इस प्रकार थे—

1. कोरोना वेक्सीन के प्रति उठने वाली भ्रान्तियों को दूर करना।
 2. भारतीय वेक्सीन “को-वेक्सीन” ओर “कोविशिल्ड वेक्सीन” के बीच में अन्तर को जनसामान्य को प्रसारित करना।
 3. किसी भी वेक्सीनेशन के बाद होने वाली सामान्य विपरीत प्रभावों से वेक्सीन प्राप्तकर्ता को (जनसामान्य) को अवगत कराना।
 4. को मोरबीडीटीस् वाले रोगियों को कोरोना वेक्सीन के लिए जागरूक करना।
- इस महामारी के दौरान कुछ स्वयंसेवक गरीब बच्चों को पढ़ाने में लगे हुये थे।



सशक्त

रोना नहीं है, खुद को ताकतवर बनाना है

6 आपकी एक लापरवाही आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने साथ घट रही किसी भी घटना को असामान्य होते हुए भी सामान्य ना समझें। हमेशा सतर्क रहें। समय पर आवाज उठाने से मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आपको सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त बनना होगा, ताकि किसी भी अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकें और समाज में बेहतर जीवन जी सकें।




जाह्नवी सारस्वत

चित्र: शिक्षा के कार्य में संलग्न स्वयंसेविकाएं


मार्च, 2021

इस माह भी स्वयंसेवक लगातार कोरोना से मुक्त होने के लिए सभी गतिविधियों से जन सामान्य को अवगत कराते रहे। इस माह का मुख्य केन्द्र जनमानस को वेक्सीन के लिए तैयार करना था।





चित्र: कोरोना वायरस से सुरक्षित माहोल की मुहिम जारी



चित्र: वृक्ष बचाओ विषय पर सामाजिक चेतना का विकास

मार्च माह में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर “भागीदारी जन सहयोग समिति और दिल्ली लीगल सर्विस ऑथोरिटी, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक संस्था है ने डॉ. रजनी चौहान, कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, वनस्थली विद्यापीठ को 6 मार्च, 2021 को “Women Empowerment Award” से नवाजा। यह संस्था दिल्ली की अग्रणी रजिस्टर्ड एनजीओ में से है और यह अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी ओर्गेनाइजेशन से भी जुड़ी हुई है।

